



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 508] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 1982/कार्तिक 17, 1904
No. 508] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 1982/KARTIKA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1982

क्रा० आ० 785 (अ).—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 3, 8 और 9 में विनिर्दिष्ट प्रकार के आदेश करने में जहाँ तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (XII) और (XV) में विनिर्दिष्ट (क) ऊर्जा के उत्पादन, पूर्ति और वितरण का कारबार करने वाले किसी संस्थापन या उपक्रम में किसी सेवा से और (ख) राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचनों से संबंधित किसी सेवा से, है केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को, नागालैंड सरकार को, उक्त राज्य सरकार की सम्मति से, इस शर्त के अधीन रहते हुए सौंपते हैं कि ऐसे समनुदेशन के होते हुए भी उक्त कृत्यों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा सकेगा ।

[सं० 1/11025/26/81-आई एस यू एस डी-II]

एल० एन० गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1982

S. O. 785 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President hereby entrusts to the Government of Nagaland, with its prior consent, the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in sections 3, 8 and 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981), in so far as they relate to (a) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of power, and (b) any service in connection with elections to the Legislature of the State, specified in sub-clauses (xii) and (xv) of clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, subject to the condition that notwithstanding such entrustment the said functions may also be exercised by the Central Government.

[No. I/11025/26/81-IS.US(D-II)]

L. N. GUPTA, Jt. Secy.